

भारत सन्डे स्कूल
सीनियर द्वितीय वर्ष वर्क बुक
BHARAT SUNDAY SCHOOL
SENIOR SECOND YEAR WORK BOOK
पाठ 1 – प्रांगण LESSON 1 - THE COURTYARD

Q 1. उपयुक्त रूप से निम्नलिखित को मिलाएँ : Match the following suitably:

1. बच्चे..... पवित्र स्थान..... आत्मिक रूप से परिपक्व

Children----- holy place---- spiritually mature

2. नव युवकों..... महापवित्र..... परमेश्वर के राज्य में जन्म लिया

Young men----- holy of holies---- birthed into God's kingdom

3. पिता.....बाहरी आंगन.....शैतान पर जय

Fathers----- outer court-----victory over Satan

Q 2. चदर के बराबर है।

Linen is equal to ----

Q 3. खून का बहाव कहा से होता है?

Where does the shedding of blood take place?

Q 4. हमारा फसह का दीपक कौन है? संदर्भ के साथ उद्धृत करें। 1 कुरिन्थियों 5:7।

Who is our Passover Lamp? Quote with reference. 1 Cor. 5:7

.....
.....

Q 5. इस्राएल को दी गई प्रतिज्ञात भूमि क्या थी? यूहन्ना 14:2 के अनुसार हमें दी गई प्रतिज्ञा क्या है?

What was the promise land to Israel? What is our promise according to John 14:2?

पाठ 2 – पीतल का हौद LESSON 2 - THE BRAZEN LAVER

Q 1. शुद्धिकरण के लिये पुराना नियम का तरीका बाह्य है। फिर नया नियम का तरीका है?

Old Testament way of purification is external. Then New Testament way is-----?

Q 2. पीतल का हौद किस के लिये उपयोग किया गया था?

For whom the Brazen Laver was used?

Q 3. किस प्रेरित ने वचन की तुलना दर्पण से किया है? याकूब 1:23 को उद्धृत करें।

Which apostle compares word to mirror? Quote James 1:23

.....

.....

Q 4. कब एक व्यक्ति को आत्मा के नौ फल मिल सकते हैं? पवित्र आत्मा के अभिषेक से पहले और बाद में? सही को टिक करें।

When could one get nine gifts of the spirit? Before or after anointing of Holy Spirit. Tick the right.

Q 5. सभी विश्वासियों के लिये क्या प्रतिज्ञा दी गई है? प्रेरितों 2:39 को उद्धृत करें।

What is the promise for all believers? Quote Acts 2:39

पाठ 3 — पवित्र स्थान LESSON 3 - THE HOLY PLACE

Q 1. दुष्ट कौन है?

Who is the wicked one?

Q 2. 48 क्या दर्शाता है?

What does 48 indicate?

Q 3. उपयुक्त रूप से निम्नलिखित को मिलाएँ।

Match the following suitably—

1. नीला..... परमेश्वर का वचन | Blue ----- word of God

2. बैंगनी..... खून का रंग जिसे याजकों को चढ़ाना है | Purple ----- color of blood priests have to offer

3. लाल.....राजकीय सेवा | Scarlet ----- royal ministry

Q 4. मलिकिसिदक के दिनों कौन से दो समूह एकजुट थे?

What two offices were united in Melchizedek?

Q 5. कौन हमारे जीवन की रोटी है? यूहन्ना 6:35 को उद्धृत करें।

Who is our bread of life? Quote John 6:35

पाठ 4 – दीवट LESSON 4 - THE CANDLESTICK

Q 1. पेंसिल की मदद से एक दीवट बनाएँ और प्रत्येक सिर पर सात आत्माओं को लिखें?

Draw a candlestick with pencil and write seven spirits over each head?

.....
.....

Q 2. राजा सुलैमान अपने स्वप्न में क्या चाहा?

What did King Solomon wish in his dream?

Q 3. यूसुफ सपनों की व्याख्या करने के लिये कौन सी आत्मा का उपयोग किया था?

What spirit was used by Joseph to interpret dreams?

Q 4. दीवट पर कौन सा तेल डाला जाता है?

What oil is poured on the candlestick?

पाठ 5 – सोने की वेदी LESSON 5 - THE GOLDEN ALTAR

Q 1. पेंसिल से सोने की वेदी बनाईए।

Draw with pencil the Golden Altar?

.....
.....

Q 2. निम्नलिखित को मिलाएँ – Match the following ----

- | | |
|---|--|
| 1. बोल..... निरन्तर प्रार्थना में लगे रहो। Stacte ----- | Pray without ceasing. |
| 2. नखी नम्रता। Onycha ----- | Meekness. |
| 3. कुन्दरू प्रार्थना में पूरा समर्पण या टूटना। Galbanum ----- | Complete
surrender in prayer or broken. |
| 4. सुगन्धद्रव्य प्रार्थना में आँसू बहाना। Frankincense ----- | Shedding tears in prayer. |
| 5. वेदी के चार स्वर विश्वास। Four hones of the altar ---- | Faith |
| 6. पीढ़ी पीढ़ी का धूप सामर्थ्य। Perpetual incense----- | Power. |

Q 3. हम सात आत्माओं के अभिषेक का अनुभव कहाँ करते हैं?

Where do we experience the anointing of seven spirits?

.....
.....

Q 4. आरंभ में पुराना नियम में धूप जलाने का काम किसे सौंपा गया था?

Who was entrusted to burn incense in the Old Testament period in the beginning?

Q 5. इब्रानियों 4:16 को उद्धृत करें | Quote Heb. 4:16

पाठ 6 — महा पवित्र LESSON 6 - HOLY OF HOLIES

Q 1. मिलापवाले तम्बू का कौन सा भाग परदे से अलग किया गया?

Which portion of the tabernacle is separated by the veil?

Q 2. परदा कब फटा था?

When was the veil torn?

Q 3. परदे की माप क्या है?

What is the measurement of the veil?

Q 4. जब महायाजक महा पवित्र स्थान में प्रवेश करता है तो आप उस दिन को क्या कहते हैं?

What do you call the day when the high priest enters the holy of holies?

Q 5. हमारा महायाजक कौन है?

Who is our High Priest?

Q 6. "अपने अपने जीव को दुःख देना" का क्या अर्थ है? लैव्यव्यवस्था 16:29, 31 |

What is meant by "afflict your soul? Lev 16:29,31

पाठ 7 — वाचा का सन्दूक LESSON 7 - ARK OF COVENANT

Q 1. वाचा के सन्दूक का एक पेंसिल चित्र बनाएँ।

Make a pencil drawing of the Ark of Covenant?

.....
.....

Q 2. सन्दूक किस प्रकार बना है?

How is the Ark made of?

Q 3. मन्ना का स्वाद कैसा है?

How is the taste of Manna?

Q 4. यहूदी लोगों को बचाने में एस्तेर की भूमिका कैसी थी?

How was Esther's role in saving Jewish people?

Q 5. यिर्मयाह 31:33 के अनुसार "पत्थर की पट्टियों के बजाय उनके हृदय पर लिखूंगा" का क्या अर्थ है?

What is meant by writing in heart than writing in stone tablets according to Jeremiah 31:33?

पाठ 8 – कलियाँवाला छड़ी और प्रायश्चित का ढकना LESSON 8 - BUDDERED ROD AND MERCY SEAT

1. मूसा और हारून पर क्या आरोप लगाया गया था?

What was the accusation raised against Moses and Aaron?

2. किसके रुमाल से चमत्कार हुआ जब बीमार पर रखा गया?

Whose kerchief caused miracle when put on the sick?

3. महा पवित्र स्थान में रखे गए लेख क्या हैं?

What are the articles kept in the Holy of Holies?

4. उन पाँच नामों को लिखें जिन्हें आपको लगता है कि महा पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिये योग्य पिता के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

Write five names who you think can be categorized as father eligible to enter Holy of Holies today.

5. अपने लोगों को बचाने में एस्तेर की भूमिका का वर्णन करें।

Describe the role of Esther in saving her own people.

पाठ 9 – परमेश्वर की महिमा LESSON 9 - THE GLORY OF GOD

Q 1. प्रेरितों 5 में किसे सदा दी गई और क्यों?

Who were punished as in Acts 5 and why?

Q 2. जब बादल का खम्भा इस्राएल पर छाया किया था तो मिस्रियों का क्या हुआ?

When the pillar of cloud shined on Israel what happened to Egyptians?

.....
.....

Q 3. "परमेश्वर की महिमा" के लिए दूसरा शब्द क्या है?

What is the other word for 'glory of God'?

Q 4. सन्दूक का कौन सा भाग परमेश्वर की महिमा को प्रगट करता है?

What part of Ark does 'the glory of God appear'?

Q 5. पत्थर की पट्टियों पर लिखी व्यवस्था और हृदयों में लिखे व्यवस्था के बीच क्या अन्तर है?

What is the difference between the laws written in stone tablets and written in hearts?

.....
.....

Q 6. मूसा का चेहरा लोगों को कब चमकता हुआ दिखाई दिया?

When did Moses face shine- visible to people?

पाठ 10 – इस्राएल के जीवन में मिलापवाले तम्बू LESSON 10 - THE TABERNACLE IN THE LIFE OF ISRAEL

Q 1. यहोवा के सन्दूक को कौन उठा लाया?

Who carried the Ark of the Lord?

Q 2. इस्राएल ने यरदन नदी को कैसे पार किया? छः वाक्यों में वर्णन कीजिए।

How did Israel cross the river Jordan? Describe in six sentences.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Q 3. दागोन कौन था?

Who was Dagon?

Q 4. जब यहोवा का सन्दूक दागोन के घर में रखा था, तो दागोन का क्या हुआ?

What happened to Dagon when the Ark of the Lord kept in its house?

Q 5. एबनेजेर क्या है?

What is EBENEZER?

तिमाही 2 पाठ 11 – ऐतिहासिक पृष्ठभूमि **QUARTER 2 LESSON 11 - HISTORICAL BACKGROUND**

Q 1. ईसा पूर्व और ईसवी का विस्तार करें। हर अवधि पर वर्षों की गणना कैसे की जाती है?

Expand A D and B C. How are years calculated on each period?

Q 2. बाइबल किन वर्षों में लिखी गई थी?

Within which years Bible was written?

Q 3. पंचतंत्र में कौन सी पाँच पुस्तकें हैं? लेखक कौन था?

Which are the five books in Pentateuch? Who was the author?

.....
.....

Q 4. पृथ्वी पर बाढ़ होने के कारण क्या था और परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिये क्या उपाय किया?

What caused the flood on earth and the remedy did God give to man to escape?

Q 5. यीशु ने पुराना नियम की प्रामाणिकता पर किस प्रकार जोर दिया?

How did Jesus emphasize the authenticity of O T?

पाठ 12 – इस्राएल स्थापित हुआ **LESSON 12 - ISRAEL ESTABLISHED**

Q 1. आप पहले "इस्राएल" शब्द कहाँ पाते हैं? इसका संदर्भ लिखिए।

Where do you find the word 'Israel' first? Write its reference.

Q 2. परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था कहाँ पर दिया?

Where did God give Laws to Moses?

Q 3. कनान की यात्रा पर इस्राएल को दिए गए खाद्य पदार्थ क्या क्या हैं?

What are the food items given to Israel on their journey to Canaan?

Q 4. परमेश्वर ने एक मात्र सच्चे जीवित ईश्वर की आराधना के लिये और की स्थापना की।

God established ----and ----for the worship of the only true living God.

Q 5. कनान देश में प्रवेश करने वाले अगुवों के नाम बताईए।

Name the leaders who entered the land of Canaan?

Q 6. इस्राएल ने मिस्र में कितने वर्ष बिताये?

How many years did Israel spend in Egypt?

पाठ 13 – राजाओं के समय LESSON 13 - PERIOD OF KINGS

Q 1. इस्राएली साम्राज्य के दो विभाजन क्या थे?

What were the two divisions of Israeli kingdom?

Q 2. बाइबल की पुराना नियम के कौन सी पुस्तक राज्यों का वर्णन करता है?

Which O T books of the Bible describe the kingdoms?

Q 3. किसे "परमेश्वर के मन के अनुसार" का व्यक्ति कहा जाता था?

Who was called the man of 'having the heart of God'?

Q 4. अविभाजित राज्य में राजा सुलैमान का उत्तराधिकारी कौन हुआ?

Who succeeded king Solomon in the undivided kingdom?

Q 5. शाऊल किस गोत्र से था?

What tribe did Saul belong?

Q 6. शाऊल की शत्रुता दाऊद के विरुद्ध कैसे आरंभ हुआ?

How did Saul's enmity start against David?

पाठ 14 – इस्राएल की बन्धुवाई और वापसी LESSON 14 - CAPTIVITY AND RETURN OF ISRAEL

Q 1. वे तीन पुस्तकें कौन सी हैं जिनमें बन्धुवाई के समय का वर्णन किया गया था?

What are the three books in which the captivity period was described?

Q 2. इस्राएल में 'पुरीम' पर्व क्या है?

What is 'Purim' festival to Israel?

Q 3. जरुबाबेल के अधीन कितने लोग यरुशलेम को लौटे?

How many people returned to Jerusalem under Zerubbabel?

Q 4. यरुशलेम की दीवार का निर्माण किसके अगुवाई में किया गया था?

Under whose leadership was the Jerusalem wall constructed?

Q 5. यहूदी लोगों के लिये एस्तेर की योगदान क्या थी?

What was the contribution of Esther to Jewish people?

पाठ 15 — महान साम्राज्य LESSON 15 - THE GREAT EMPIRES

Q 1. निम्नलिखित साम्राज्यों को शासन किए सम्राट के साथ मिलान करें और वर्ष लिखें।

Match the following empires with the emperor ruled and the years there off

1. बेबीलोन साम्राज्य.....अगस्तस कैसर.....वर्ष।

Babylonian Empire-----Augustus Caesar-----year

2. मादी फारसी.....नबूकदनेस्सर.....वर्ष।

Media –Persia-----Nebuchadnezzar-----year-

3. यूनान.....क्षयर्ष..... वर्ष।

Greek-----Ahasuerus-----year

4. रोमी.....सिकन्दर महान.....वर्ष।

Roman-----Alexander the great----year

Q 2. किस घटना के कारण बेबीलाने साम्राज्य का अन्त हुआ?

What incident caused the end of Babylonian empire?

Q 3. मादी—फारसी साम्राज्य के दौरान यहूदियों को लौटने की स्वतंत्रता किसने दी?

Who gave freedom for Jews to return during Media- Persia Empire?

Q 4. क्षयर्ष का पिलानेहारा कौन था?

Who was Zerxes' cup bearer?

Q 5. पौलूस किसके समय में मारा गया था?

Whose time Paul was killed?

Q 6. इस्राएल की मन्दिर का विनाश किसने और कब किया?

Who destroyed Israeli temple and when?

पाठ 16 – नया नियम का इतिहास LESSON 16 - THE NEW TESTAMENT HISTORY

Q 1. यीशु के जन्म के समय रोम सम्राज्य पर किसका शासन था?

Who ruled Roman Empire when Jesus was born?

Q 2. शिशु यीशु को निशाना बनाकर शिशुओं की हत्या का आदेश किसने दिया?

Who ordered the killing of infants aiming at infant Jesus?

Q 3. कैसरिया में किसका आधिकारिक निवास था?

Whose official residence was at Caesarea?

Q 4. प्रेरितों के काम में कौन से अध्याय प्रेरित पौलुस की मिशनरी गतिविधियों का वर्णन करते हैं?

Which chapters in Acts describe the missionary activities of Apostle Paul?

Q 5. रोमियों की पुस्तक में मुख्य विषय क्या है?

What is the main theme in the book of Romans?

पाठ 17 – उत्पत्ति और निर्गमन LESSON 17 - GENESIS AND EXODUS

Q 1. इब्रियों में उत्पत्ति के लिये किस शब्द का उपयोग किया गया है?

What word is used for Genesis in Hebrews?

Q 2. उत्पत्ति का लेखक कौन हो सकता है?

Who can be the author of genesis?

Q 3. इस्राएल की 12 गोत्रों को कौन सी बात मिस्र तक पहुँचाया?

What led 12 tribes of Israel to Egypt?

Q 4. उत्पत्ति में किस घटना के कारण भाषाओं का विकास हुआ?

Which incident led to the development of languages in Genesis?

.....
.....

Q 5. रिक्त स्थान भरें | Fill in

1) उत्पत्ति में पद हैं।

Genesis has --- no of verse.

2) ने मिस्र में इस्राएल को नापसन्द किया।

---- disliked Israel in Egypt.

3) परमेश्वर ने इस्राएल को लाल सागर में होकर चलाया।

----God led Israel through Red Sea.

4) उत्पत्ति और निर्गमन में..... अध्याय हैं।

----many chapters are there in Genesis and Exodus.

Q 6. आप मूसा और मसीह की तुलना किस प्रकार करते हैं?

How do you compare Moses and Christ?

पाठ 18 – लैव्यव्यवस्था, गिनती और व्यवस्थाविवरण LESSON 18 - LEVITICUS, NUMBERS AND DEUTERONOMY

Q 1. लैव्यव्यवस्था की पुस्तक में 'पवित्रता' शब्द कितनी बार पाया जाता है?

How many times the word 'holiness' is found in the book of Leviticus?

Q 2. लैव्यव्यवस्था में वर्णित तीन प्रमुख याजकों के नाम लिखिए।

Write three leading priests mentioned in Leviticus.

Q 3. कादेशबर्ने में इस्राएल द्वारा किया गया मुख्य पाप और उसका परिणाम क्या था?

What was the main sin done by Israel at Kadesh Bernea and what was its result?

.....
.....

Q 4. इस पुस्तक को गिनती क्यों कहा जाता है?

Why this book is called Numbers?

Q 5. मूसा ने व्यवस्थाविवरण की पुस्तक को कहाँ लिखा था?

Where did Moses write the book of Deuteronomy?

Q 6. मूसा और यीशु के बीच तीन समानताएँ लिखें।

Write three similarities between Jesus and Moses.

.....

.....

.....

Q 7. मूसा की लोथ को किसने और कैसे दफनाया?

Who buried Moses' body and how?

पाठ 19 – यहोशू, न्यायियों और रूत LESSON 19 - JOSHUA, JUDGES AND RUTH

Q 1. मूसा का उत्तराधिकारी कौन हुआ?

Who succeeded Moses?

Q 2. सूर्य को किसने स्थिर किया और कब किया?

Who made the sun stand still and when?

Q 3. यहोशू का जन्म कहाँ हुआ था?

Where did Joshua born?

Q 4. यहोशू शब्द का अर्थ क्या है?

What is the meaning of the word Joshua?

Q 5. न्यायियों के पुस्तक में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन थे?

Who were the shining personalities in the book of Judges?

Q 6. 'बैतलहम' शब्द का अर्थ क्या है?

What is the meaning of the word' Bethlehem?

Q 7. रूत का मूल निवास स्थान क्या था?

What was the native place of Ruth?

पाठ 20 – पहला और दूसरा शमूएल, पहला राजा LESSON 20 - FIRST AND SECOND SAMUEL, FIRST KING

Q 1. इस्राएल के राजा के रूप में शाऊल का अभिषेक किसने किया?

Who anointed Saul as the king of Israel?

Q 2. शाऊल के पतन का कारण क्या बना?

What made Saul to fall?

Q 3. जहाँ से दाऊद ने शासन किया था उसकी नई राजधानी क्या थी?

What was the new capital from where David ruled?

Q 4. पहला राजाओं के पुस्तक में किसका भविष्यद्वाणी की सेवकाई का वर्णन किया गया है?

Whose prophetic ministry is described in the book of First Kings?

Q 5. किसके शासन में इस्राएल की राज्य विभाजित हुआ?

In whose rule the kingdom of Israel divided?

Q 6. प्रथम इस्राएल की मन्दिर का निर्माण किसने किया?

Who built the first Israeli temple?

पाठ 21 – 2 राजाओं, पहला और दूसरा राजाओं LESSON 21 - 2 KINGS, FIRST AND SECOND KINGS

Q 1. रिक्त स्थान भरें | Fill in.

1) ने उत्तरी राज्य को अपने अधिकार में लिया।

-----captured the northern kingdom.

2) ने 1 इतिहास की पुस्तक लिखा है।

----Wrote the book 1 Chronicles

Q 2. आत्मिक मानक पर उत्तरी राज्य (इस्राएल) और दक्षिणी राज्य (यहूदा) के बीच क्या अन्तर है?

What is the difference between the northern kingdom (Israel) and southern kingdom (Judea) on spiritual standard?

.....
.....
.....

Q 3. 2 इतिहास में वर्णित प्रमुख राजा कौन थे?

Who were the prominent kings described in 2 Chronicles?

Q 4. 2 इतिहास के समय इस्राएल पर आक्रमण करनेवाला शासक का नाम बताईए।

Name the ruler attacked Israel during 2 Chronicles period.

Q 5. उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य में सेवा देने वाले तीन भविष्यद्वक्ताओं के नाम बताईए।

Name three prophets each ministered in northern and southern kingdom.

पाठ 22 – एज़ा, नहेम्याह और एस्तेर की पुस्तकें **LESSON 22 - THE BOOKS OF EZRA, NEHEMIAH AND ESTHER**

Q 1. किस फारसी राजा ने इस्राएल को मन्दिर बनाने की स्वतंत्रता दिया?

Which Persian king gave freedom to Israel to build the temple?

Q 2. जरुब्बाबेल कौन था?

Who was Zerubbabel?

Q 3. यरुशलेम की दीवार को बनाने के लिये नहेम्याह को कितने दिन लगे?

How many days did Nehemiah take to build Jerusalem wall?

Q 4. नहेम्याह में प्रमुख शब्द क्या है?

What is the key word in Nehemiah?

Q 5. बाइबल की किस पुस्तक में भारत का उल्लेख है?

Which book of the Bible mentions INDIA?

Q 6. किसने सभी यहूदियों को मारने की साजिश रची और इसका परिणाम क्या हुआ?

Who made a plot to kill all Jews and what was the result?

पाठ 23 – अय्यूब और भजन संहिता की पुस्तकें **LESSON 23 - THE BOOK OF JOB AND PSALMS**

Q 1. अय्यूब कितने वर्ष जीवित रहा?

How many years did Job live?

Q 2. अय्यूब की पुस्तक में मुख्य विषय क्या है?

What is the main theme in the book of Job?

Q 3. अय्यूब कहाँ रहता था?

Where did Job live?

Q 4. अधिकांश भजनों को किसने लिखा है?

Who wrote the maximum number of Psalms?

Q 5. इस्राएल की गीत पुस्तक को क्या कहा जाता है और क्यों?

What is called Israel's song book and why?

Q 6. सेला क्या है?

What is Selah?

पाठ 24 – नीतिवचन, सभोपदेशक और श्रेष्ठगीत LESSON 24 - PROVERBS, ECCLESIASTES AND SONG OF SOLOMON

Q 1. नीतिवचन की पुस्तक में प्रमुख शब्द कौन सा है?

Which is the key word in the book of Proverbs?

Q 2. नीतिवचन में 30 और 31 अध्याय को किसने लिखा है?

Who wrote chapters 30 and 31 in Proverbs?

Q 3. 'सभोपदेशक' शब्द का अर्थ क्या है?

What is the meaning of the word 'Ecclesiastes'?

Q 4. श्रेष्ठगीत की पुस्तक में मुख्य अभिनेता कौन हैं?

Who are the main actors in the book of Song of Solomon?

Q 5. श्रेष्ठगीत में मसीह को किस रूप में चित्रित किया गया है?

How is Christ portrayed in Song of Solomon?

.....
.....
Q 6. राजा सुलैमान ने सभोपदेशक की पुस्तक को किन परिस्थितियों में लिखा?

At what circumstances king Solomon wrote the book Ecclesiastes?

पाठ 25 – बड़े भविष्यद्वक्ताएँ – यशायाह – परमेश्वर देता है LESSON 25 - MAJOR PROPHETS- ISAIAH – GOD SAVES

Q 1. यशायाह के समय में किस राजा ने इस्राएल पर शासन किया?

Which king ruled over Israel at the time of Isaiah?

Q 2. रिक्त स्थान भरें। Fill in

1) परमेश्वर ने को इस्राएल को पुनर्स्थापित करने के लिये उठाया।

God raised ---- to restore Israel.

2) पद यीशु के कुंवारी से जन्म का उल्लेख करती है। पद को उद्धृत करें।

---Verse mentions Jesus' virgin birth. Quote it

3) यशायाह की पुस्तक में अध्यायों की संख्या हैं।

---Number of chapters are there in the book of Isaiah.

4) यशायाह को पुराना नियम का कहा जाता है।

Isaiah was called the ----of O T.

Q 3. कौन सा अध्याय यीशु के क्रूसीकरण की भविष्यद्वाणी को दर्शाता है?

Which chapter shows the prophecy on the crucifixion of Jesus?

पाठ 26 – यिर्मयाह की पुस्तक LESSON 26 - THE BOOK OF JEREMIAH

Q 1. रिक्त स्थान भरें। Fill in.

1) यिर्मयाह का अर्थ है।

The meaning of Jeremiah is----.

2) रोने वाला भविष्यद्वाक्ता है।

---Is the weeping prophet.

3) ने यिर्मयाह के समय में इस्राएल पर शासन किया।

---Ruled Israel during Jeremiah's time.

4) यिर्मयाह 18 अध्याय में प्रमुख विषय है।

--- Is the main theme in Jeremiah chapter 18.

5) यिर्मयाह और अध्याय 1991 खाड़ी युद्ध के बारे में भविष्यद्वाणी की।

---and ---Chapters of Jeremiah prophesied about Gulf war 1991.

6) यिर्मयाह वर्ष तक जीवित रहा ।

Jeremiah lived for ---number of years.

Q 2. यिर्मयाह 51:44 को उद्धृत करें और इसका अर्थ लिखें ।

Quote Jeremiah 51:44 and write its meaning.

पाठ 27 – विलापगीत की पुस्तक LESSON 27 - THE BOOK OF LAMENTATIONS

Q 1. यिर्मयाह ने इस पुस्तक को क्यों लिखा?

Why did Jeremiah write this book?

.....

.....

.....

Q 2. यिर्मयाह और यीशु किस शहर विषय में रोए?

About which city did Jeremiah and Jesus weep?

Q 3. भविष्यद्वक्ताओं के पाप क्या थे?

What were the sins of the prophet?

.....

.....

.....

Q 4. इस पुस्तक में कितने अध्याय और आयत हैं?

How many chapters and verses are there in this book?

Q 5. यिर्मयाह विलाप क्यों करता है?

Why do Jeremiah lament?

पाठ 28 – यहजेकेल को पुस्तक – परमेश्वर दृढ़ करेगा LESSON 28 - THE BOOK OF EZEKIEL – GOD WILL STRENGTHEN

Q 1. यहजेकेल कहाँ रहता था?

Where did Ezekiel live?

Q 2. यहजेकेल के दो उपनाम लिखिए ।

Write two nicknames of Ezekiel.

Q 3. बन्धुवाई के वर्षों को कितने वर्ष कहा जाता है?

How many years are called the years of captivity?

Q 4. हड्डियों की घाटी के लिये क्या प्रतिज्ञा की गई थी?

What was promised to the valley of bones?

Q 5. इस्राएल के आस-पास के पड़ोसी राज्य क्या क्या थे?

What were the neighboring kingdoms around Israel?

Q 6. अध्याय 39 के जैसा हड्डियों की घाटी का वर्णन कीजिए।

Describe the valley of bones as in chapter 39.

पाठ 29 – दानिय्येल की पुस्तक LESSON 29 - THE BOOK OF DANIEL

Q 1. रिक्त स्थान भरें। Fill :

1) दानिय्येल का अर्थ

Daniel means-----

2) ने किशोर दानिय्येल को पकड़ा।

---Caught teenager Daniel.

3) राजा, और थे जिनकी सेवा दानिय्येल ने की।

---, ---and --- were the kings Daniel served.

Q 2. बाल की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई थी?

Where did the statue of Baal erect?

Q 3. लकटकता हुआ बगीचा क्यों बनाया गया था?

Why was the hanging garden built?

.....
.....

4. बकरे के बड़े सींग और छोटे सींग कौन थे?

Who were the big horn of buck goat and small horn?

पाठ 30 – छोटे भविष्यद्वक्ता – होशे, योएल, आमोस और ओबद्याह की पुस्तक
**LESSON 30 - SMALL PROPHETS—THE BOOKS OF HOSEA, JOEL, AMOS AND
OBADIA**

Q 1. होशे की पुस्तक में विषय क्या है?

What is the theme in the book of Hosea?

Q 2. पन्तेकुस्त के बारे में किसने भविष्यद्वक्ता की? नया नियम यह कहाँ उद्धृत किया गया है?

Who prophesied about Pentecost? Where is it quoted in N T?

Q 3. किस भविष्यद्वक्ता की पृष्ठभूमि एक भेड़ प्रजनक था?

Which prophet was a sheep breeder by background?

Q 4. दक्षिण एशिया में सुनामी कब आई?

When did tsunami occur in South Asia?

Q 5. निम्नलिखित का मिलान करें। Match the following.

1. होशे ——— परमेश्वर का सेवका।
Hosea-----servant of the Lord
2. योएल ——— उद्धार।
Joel-----salvation
3. टामोस ——— यहोवा परमेश्वर है।
Amos-----Lord is God
4. ओबद्याह ——— बोझ उठानेवाला।
Obadiah-----burden bearer

पाठ 31 – योना, मीका, नहूम और हबक्कूक की पुस्तक **LESSON 31 - THE BOOKS
OF JONAH, MICAH, NAHUM AND HABAKKUK**

Q 1. निम्नलिखित का सही मिलान करें। Match the following correctly.

- 1) योना ——— जो गले लगाता है।
Jonah-----one who embraces
- 2) मीका ——— कबूतर।
Micah-----dove
- 3) हबक्कूक ——— परमेश्वर के समान।
Habakkuk—like God

Q 2. योना की पुस्तक में मुख्य विषय क्या है?
What is the main theme in the book of Jonah?

Q 3. आप योना की तुलना मसीह के साथ कैसे करते हैं?
How do you compare Jonah with Christ?

Q 4. योना ने कहाँ प्रचार किया?
Where did Jonah preach?

Q 5. आप सब यह पद कहाँ पाते हैं "धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा" संदर्भ के साथ लिखिए।
Where all do you find 'the just shall live by faith' Write with references

पाठ 32 – सपन्याह, हागगै, जकर्याह और मलाकी की पुस्तकें LESSON 32 - THE BOOKS OF ZEPHANIAH, HAGGAI, ZECHARIAH AND MALACHI

Q 1. सपन्याह की सेवकाई के दौरान मूर्ति पूजा किसने प्रचलित की?
Who popularized idol worship during Zephaniah's ministry?

Q 2. हागगै की सेवकाई के अधीन किस राजा ने मन्दिर बनाने की अनुमति दी थी?
Which king gave permission to build temple under Haggai's ministry?

Q 3. सपन्याह के समय यहूदा में किसके शासन में जागृति शुरू हुई?
Under whose rule revival started in Judea during Zephaniah?

Q 4. निम्नलिखित का उपयुक्त मिलान करें :
Match the following suitably:

1. सपन्याह — सन्देशवाहक।

Zephaniah----messenger

2 हागगै — परमेश्वर भूलता है।

Haggai-----Lord forgets

3. जकर्याह — पर्व।

Zechariah----festival

4. मलाकी — परमेश्वर स्मरण करता है।

Malachi-----the Lord remembers

Q 5. रिक्त स्थानों को भरें। Fill in the blanks:

1) हागगै का समकालीन था।

----was the contemporary of Haggai

2) पुराना नियम का अन्तिम भविष्यद्वक्ता है।

----Is the last prophet of O T.

पाठ 33 – चारों सुसमाचार LESSON 33 - FOUR GOSPELS

Q 1. मलाकी के बाद मौन अवधि को किसने तोड़ा?

Who broke the silent period after Malachi?

Q 2. प्रत्येक सुसमाचार का लिखनेवाला मसीह को अलग तरह से कैसे प्रस्तुत करता है लिखिए।

Write how each gospel writer presents Christ differently

.....
.....
Q 3. हर एक सुसमाचार किसके लिये लिखा गया था लिखिए। उदाहरण, मत्ती ने यहूदियों के लिये लिखा।
Write to whom each gospel was written. Example Matthew wrote for Jews.

.....
.....
.....
.....
Q 4. मत्ती शब्द का अर्थ क्या है?
What is the meaning of the word Matthew?

.....
Q 5. किसने मरकुस को उद्धार तक पहुँचाया?
Who led Mark to salvation?

.....
Q 6. प्रकाशितवाक्य की पुस्तक को किसने लिखा है?
Who wrote the book of Revelation?

.....
Q 7. कौन सा सुसमाचार का लेखक पेशे से एक चिकित्सक था?
Which gospel writer was a physician by profession?

**पाठ 34 – प्रेरितों के काम और रोमियों की पत्री की पुस्तक LESSON 34 -
THE BOOKS OF ACTS AND THE EPISTLE OF ROMANS**

Q 1. मसीही गवाही के लिये प्रेरक शक्ति क्या है?
What is the driving force for Christian testimony?

.....
.....
.....
Q 2. पृष्ठ 112, पारा 4 में शहीद जस्टिन की पद को उद्धृत कीजिए।
Quote Justin Martyr' quotation as in page 112, Para 4.

.....
.....
Q 3. स्तिफनुस की मौत ने कैसे पौलुस की जैसा एक मिशनरी को खड़ा किया था?
How was the death of Stephen raised a missionary like Paul?

.....
.....
.....
Q 4. कौन सा पद मार्टिन लूथर को सुधार के लिये प्रेरित किया?
Which verse led Martin Luther to Reformation?

Q 5. रोम के कलीसिया में मसीही कौन थे?
Who were the Christians in the church of Rome?

पाठ 35 – पहला और दूसरा कुरिन्थियां और गलातियों की पत्रियाँ
LESSON 35 - THE EPISTLES OF FIRST AND SECOND CORINTHIANS AND GALATIANS

Q 1. पहला कुरिन्थियों की पत्री पौलुस ने कहाँ लिखा?
Where did Paul write the first Corinthians?

.....
.....
.....
Q 2. पहला कुरिन्थियों अध्याह 13 में क्या वर्णन किया गया है?
What is described in chapter 13 of First Corinthians?

.....
.....
.....
Q 3. कुरिन्थियों की कलीसिया की दो समस्याओं को लिखिए जिन्हें हटाने की पौलुस ने कोशिश किया था?
Write two problems in the Corinthian church which Paul tried to remove.

.....
.....
.....
Q 4. दूसरा कुरिन्थियों क्यों लिखा गया था?
Why was the Second Corinthians written?

.....
.....
.....
Q 5. गलातियों की पुस्तक में मुख्य शब्द क्या है?

What is the key word in the book of Galatians?

Q 6. गलातियों की पुस्तक किस उद्देश्य से लिखा गया है?

What for the book of Galatians written?

**पाठ 36 – इफिसियों, फिलिप्पियों और कुलुस्सियों की पत्रियां LESSON 36 - THE
EPISTLES OF EPHESIANS, PHILIPPIANS AND COLOSSIANS**

Q 1. इफिसुस के विश्वासी गरीबी में क्यों जीते थे?

Why did the believers in Ephesus live in poverty?

.....
.....
.....
Q 2. फिलिप्पि को अपना नाम कैसे मिला?

How did the place Philippians get its name?

.....
.....
.....
Q 3. पौलुस ने इफिसियों और फिलिप्पियों की इन पत्रियों को कहाँ लिखा है?

From where did Paul write these Epistles of Ephesians and Philippians?

.....
.....
.....
Q 4. किसने पौलुस को कुलुस्से की कलीसिया की स्थितियों की जानकारी दी?

Who informed Paul about the conditions in the church of Colossae?

Q 5. हम कलीसिया से मसीह की देह की तुलना कैसे कर सकते हैं?

How can we compare Christ's body to the church?

पाठ 37 – पहला और दूसरा थिस्सलुनीकियों और पहला और दूसरा तीमुथियुस की पत्रियाँ LESSON 37 - EPISTLES OF FIRST AND SECOND THESSALONIANS AND FIRST AND SECOND TIMOTHY

Q 1. थिस्सलुनीकियों को मसीहियत की ओर क्या आकर्षित किया?

What attracted Thessalonians to Christianity?

.....
.....
.....

Q 2. पौलुस द्वारा पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री कब और कहाँ लिखी गई थी?

Where did and when was the first Thessalonians written by Paul?

.....
.....
.....

Q 3. थिस्सलुनीके में कौन सी झूठी शिक्षाएँ फैल रही थीं जिसके कारण पौलुस को थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री लिखना पड़ा?

What were the false teachings spreading in Thessalonica which led Paul to write the second epistle of Thessalonians?

.....
.....
.....

Q 4. ईसवी 64 में रोम का सम्राट था।

---Was the emperor in Rome in A D 64.

Q 5. दूसरा तीमुथियुस में मुख्य शब्द क्या है?

What is the key word in Second Timothy?

पाठ 38 – तीतुस, फिलेमोन और इब्रानियों को पत्रियाँ LESSON 38 - THE EPISTLES OF TITUS, PHILEMON AND HEBREWS

Q 1. तीतुस की पत्री की मुख्य विषय क्या है?

What is the main theme in the Epistle of Titus?

Q 2. कुलुस्से में कौन सी सामाजिक व्यवस्था प्रचलित थी?

What social system was prevailing in Colossae?

Q 3. मलिकिसिदक कौन था और उसकी तुलना मसीह से की गई है?

Who was Melchizedek and compare him with Christ?

.....

.....

.....

Q 4. अन्य पत्रियों के विपरीत पौलुस ने इब्रानियों की पत्री में अपना नाम क्यों नहीं लिखा?

Why Paul did not write his name in the Epistle of Hebrews unlike other epistles?

.....

.....

.....

Q 5. इब्रानियों की पत्री की किस अध्याय में मूसा की भूमिका का वर्णन किया गया है?

Which chapter in the Epistle of Hebrews describe the role of Moses?

Q 6. इब्रानियों में मुख्य शब्द क्या है?

What is the key word in Hebrews?

Q 7. तीतुस कौन था?

Who was Titus?

पाठ 39 – याकूब और पतरस की पत्रियाँ LESSON 39 - THE EPISTLES OF JAMES AND PETER

Q 1. यीशु के कितने भाई थे? संदर्भ लिखिए।

How many brothers did Jesus have? Write the references

.....

.....

.....

Q 2. प्रेरित याकूब की हत्या कैसे हुई?

How was apostle James killed?

.....
.....
.....

Q 3. पतरस को सूली पर उल्टा क्यों चढ़ाया गया था?

Why was Peter crucified upside down?

.....
.....
.....

Q 4. 2 पतरस में यीशु को कैसे चित्रित किया गया है?

How is Jesus portrayed in 2 Peter?

.....
.....
.....

Q 5. पतरस पहले प्रचार में कितने लोग बचाए गए थे?

How many people were saved in Peter's first preaching?

Q 6. पिनतेकुस्त के दिन क्या हुआ था?

What happened on the day of Pentecost?

पाठ 40 – 1, 2, 3 यूहन्ना की पत्रियाँ और यहूदा LESSON 40 - 1, 2, 3 EPISTLES OF JOHN AND JUDE

Q 1. प्रकाशितवाक्य की पुस्तक अध्याय दो और तीन में वर्णित सात कलीसियाएँ क्या क्या हैं?

What are the seven churches mentioned in the book of Revelation chapter two and three?

Q 2. रिक्त स्थान भरें | Fill in the blanks:

- 1) प्रेरित यूहन्ना की कलीसिया में पासबान बना।
Apostle John became a pastor in ---- church.
- 2) दूसरा यूहन्ना में मसीह कोके रूप में प्रस्तुत किया गया है।
In second John Christ is presented as----
- 3) परमेश्वर के सम्मुख हमारा बीचवर्ड है।

--- is our advocate before God.

Q 3. कैसर डोमिटियन के दौरान प्रेरित यूहन्ना को कहाँ निर्वासित किया गया था?

Where was Apostle John exiled during Caesar Domitian?

Q 4. यहूदा पद 5 को उद्धृत करें और इसका अर्थ लिखें।

Quote Jude verse five and write its meaning.

.....

.....

.....

.....

Q 5. पहला यूहन्ना में मुख्य शब्द क्या है?

What is the key word in First John?

पाठ 41 — प्रकाशितवाक्य की पुस्तक LESSON 41 - THE BOOK OF REVELATION

Q 1. रोमी सम्राटों के द्वारा मसीहियों को क्यों सताया गया?

Why were Christians persecuted by Roman emperors?

.....

.....

.....

.....

Q 2. पहली सदी में मसीहियों के सामने मुख्य प्रश्न क्या क्या थे?

What were the main questions in front of Christians in the first century?

.....

.....

.....

.....

Q 3. प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में यीशु मसीह को दिए गए पाँच नाम लिखिए।

Write five names given to Jesus Christ in the book of Revelation.

.....

.....
.....
.....
Q 4. प्रकाशितवाक्य 22:11 को उद्धृत करें।

Quote Revelation 22:11.

.....
.....
.....
.....
Q 5. यीशु का आगमन अभी तक क्यों नहीं हुआ है? 2 पतरस 3:9 को उद्धृत करें और उत्तर पाएँ।

Why Jesus did not come till now? Quote 2 Peter 3:9 and find the answer.

चयनित प्रश्नों के उत्तर कुंजी – यदि आवश्यक हो तो शिक्षक समीक्षा करें

ANSWER KEY ON SELECTED QUESTIONS- TEACHER MAY REFER IF NEEDED

पाठ 1 प्रश्न 2. परमेश्वर की धार्मिकता। प्रश्न 3. वेदी पर।

L 1 Q 2. Righteousness of God. Q 3. On alter

पाठ 2 प्रश्न 2. याजकों के लिये। प्रश्न 3. प्रेरित याकूब।

L 2 Q 2. For priests. Q 3. Apostle James

पाठ 3 प्रश्न 1. शैतान। प्रश्न 4. राजसत्ता और पुरोहिताई

L 3 Q 1 Satan. Q 4 Kingship and priesthood.

पाठ 4 प्रश्न 3. समझ की आत्मा। 4. जैतून का तेल।

L 4 Q 3 Spirit of understanding 4 Olive oil

पाठ 5 प्रश्न 4. हारून।

L 5 Q 4 Aaron

पाठ 6 प्रश्न 1. पवित्र और महापवित्र। प्रश्न 2. यीशु की मृत्यु के समय। प्रश्न 3. पृष्ठ 27, पारा 3। प्रश्न 4. प्रायश्चित्त का दिन।

L 6 Q 1 Holy and holy of holies. Q 2 At the time of Jesus' death. Q 3 Page 27 para 3. Q 4 Day of atonement.

पाठ 7 प्रश्न 1. लकड़ी सोने से तराशी गई। प्रश्न 4. पृष्ठ 31 पारा 1।

L 7 Q 1 Wood carved with gold. Q 4 Page 31 para 1

पाठ 8 प्रश्न 2. प्रेरित पौलुस।

L 8 Q 2 Apostle Paul.

पाठ 9 प्रश्न 2. अंधेरा छाया। प्रश्न 3. शकीना।

L 9 Q 2 Darkness shadowed. Q 3 Shekinah.

पाठ 10 प्रश्न 1. लेवी याजकों। प्रश्न 3. जाति जाति का देवता।

L 10 Q 1 Levite priests. Q 3 A heathen god.

पाठ 11 प्रश्न 5. पृष्ठ 45 पारा 1।

L 11 Q 5 Page 45 para 1

पाठ 12 प्रश्न 1. उत्पत्ति 32। प्रश्न 2. सीनै पर्वत। प्रश्न 4. सब्त का दिन और मिलापवाला तम्बू।

L 12 Q 1 Genesis 32. Q 2 Mount Sinai. Q 4 Sabbath days and tabernacle.

पाठ 13 प्रश्न 3. विन्यामिन।

L 13 Q 3 Benjamin. Q5 Rehboam.

पाठ 14 प्रश्न 1. एज़ा, नहेम्याह और एस्तेर। प्रश्न 3. 42000।

L 14 Q 1 Ezra, Nehemiah and Esther. Q 3 42000.

पाठ 15 प्रश्न 2. पृष्ठ 54 पारा 1। प्रश्न 3. कुस्रू। प्रश्न 4. नहेम्याह।

L 15 Q 2 Page 54 para 1. Q 3 Cyrus Q 4 Nehemiah

पाठ 16 प्रश्न 1. औगुस्तुस कैसर। प्रश्न 2. हेरोद राजा। प्रश्न 3. पुन्तियुस पिलातुस। प्रश्न 5. छुटकारा।

L 16 Q 1 Augustus Caesar. Q 2 King Herod. Q 3 Pontius Pilate. Q 5 Redemption

पाठ 17 प्रश्न 1. बरिशिथ।

L 17 Q 1 Bereshith.

पाठ 18 प्रश्न 1. 87 | प्रश्न 2. हारून, एलीआजर, इतामार, लेवी | प्रश्न 4. यहोशू ने लोगों की गिनती की |

L 18 Q 1 87 Q 2 Aaron, Eliazar, Ethamar, Levi. Q 4 Joshua counted the people. Q 7 God

पाठ 19 प्रश्न 2. युद्ध के दौरान यहोशू | प्रश्न 3. परमेश्वर का उद्धार | प्रश्न 6. रोटी की भूमि | प्रश्न 7. मोआब |

L 19 Q 2 Joshua during battle. Q 3 Salvation of the Lord Q 6 The land of bread. Q 7 Moab.

पाठ 20 प्रश्न 1. शमूएल भविष्यद्वक्ता | प्रश्न 3. यरूशलेम | प्रश्न 4. एलिय्याह | प्रश्न 5. रहूबियाम | प्रश्न 6. राजा सुलैमान |

L 20 Q 1 Prophet Samuel. Q 3 Jerusalem. Q 4 Elijah Q 5 Rehoboam. Q 6 King Solomon.

पाठ 21 प्रश्न 1. अश्शूर | प्रश्न 2. उत्तरी राज्य—इस्राएल—अभक्ति और दक्षिणी राज्य — यहूदा — ईश्वरीय | प्रश्न 3. एज़ा | प्रश्न 4. दाऊद और सुलैमान | प्रश्न 5. सन्हेरीब |

L 21 Q 1 Assyria Q 2 Northern kingdom-Israel- ungodly and southern kingdom Judea –godly Q 3 Ezra. Q 4 David and Solomon. Q 5 Sennacherib.

पाठ 22 प्रश्न 1. कूसू | प्रश्न 4. यरूशलेम की दीवार |

L 22 Q 1 Cyrus. Q 4 Jerusalem wall.

पाठ 23 प्रश्न 1. 140 वर्षों | 3. ऊज़ | 6. मनन के लिये रूकना |

L 23 Q 1 140 years. 3 UZ 6 To stop for meditation.

पाठ 24 प्रश्न 1. ज्ञान | प्रश्न 2. अगूर और लमूएल | प्रश्न 4. शीबा की रानी, सुलैमान — दुल्हन और कलीसिया दुल्हन के रूप में |

L 24 Q 1 Wisdom Q 2 Agur and Lemuel. Q 4 Queen Sulem, Solomon- bridegroom and the church as bride.

पाठ 25 प्रश्न 1. मनश्शे राजा | प्रश्न 2. रिक्त स्थान भरें | 1) कूसू 2) यशायाह 7:4 | 3) 66 | 4) सुसमाचारक |

L 25 Q 1 King Manessa. Q 2 Fill 1 Cyrus 2 Isaiah 7:4, 3_66, 4 –Evangelist

पाठ 26 प्रश्न 1. रिक्त स्थान भें | 1. प्रभु उठाता है, 2. यिर्मयाह, 3. यहोआकीम, प्रश्न 5. अध्याय 50, 51 प्रश्न. 6–44 |

L 26 Q 1 Fill 1- Lord lifts up, 2-Jeremiah, 3 Jehoiakim, Q 5 chapters 50,51 Q 6-44

पाठ 27 प्रश्न 1. बेबीलोन और मिस्र | प्रश्न 2. यरूशलेम नगर | प्रश्न 3. पृष्ठ 92 बिन्दु 3 (चौथा)

L27 Q 1 Babylon and Egypt. Q 2 Jerusalem city. Q 3 Page 92 Point 3(iv)

पाठ 28 प्रश्न 1. केबार नदी | प्रश्न 2. बेटा मनुष्य और देखो मनुष्य | प्रश्न 3–70 | 4–37 | प्रश्न 4. जीवन | प्रश्न 5. अम्मोन, मोआब, एदोम, पलीस्तीन |

L 28 q 1 River Kebar Q 2 son man and watch man Q3 -70. 4 -37. Q 4 – Life, Q 5 Ammon, Moab, Edom, Philistine-

पाठ 29 प्रश्न 1. परमेश्वर मेरा न्यायी है | प्रश्न 2. नबूकदनेस्सर | प्रश्न 3. नबूकदनेस्सर, दारा और कूसू | प्रश्न 4. बेबीलोन में | प्रश्न 5. सिकन्दर और एंटीकोस एपीपैनस |

L 29 Q 1 God is my judge. Q 2 Nebuchadnezzar. Q 3 Nebuchadnezzar, Darius and Cyrus. Q 4 In Babylon Q 5 Alexander and Antiochus Epiphanus.

पाठ 30 प्रश्न 3. आमोस | प्रश्न 5. 26 दिसम्बर, 2004 |

L 30 Q 3 Amos Q 5 December 26, 2004

पाठ 31 प्रश्न 5. हबक्कूक 2:4; रोमियों 1:17; गलातियों 3:11; इब्रानियों 10:38 |

L 31 Q 5 Habakkuk 2:4; Romans 1:17; Galatians 3:11; Hebrews 10:38

पाठ 32 प्रश्न 1. मनश्शे। प्रश्न 3. योशिय्याह। प्रश्न 4. भरें 1) जकर्याह। 2) मलकी।

L 32 Q 1 Manesseh. Q 3 Jossiah Q 4 Fill 1) Zechariah, 2) Malachi

पाठ 33 प्रश्न 1. यूहन्ना बपतिस्मादाता। प्रश्न 2. पृष्ठ 108। प्रश्न 3. 1) मत्ती से यहूदियों तक। 2) मरकुस से रोमियों तक। 3) लूका से यूनानियों तक। 4) यूहन्ना से गैर-मसीहियों तक। प्रश्न 5. पतरस। प्रश्न 7. वैद्य लूका।

L 33 Q 1 John the Baptist. Q 2 Page 108 Q 3 1) Matthew- to Jews 2) Mark to Romans 3) Luke to Greeks 4) John to Non- Christians. Q 5 Peter Q 7 Dr. Luke

पाठ 34 प्रश्न 1. पवित्र आत्मा। 2 कुरिन्थियों 5:14। प्रश्न 2. पृष्ठ 112 पारा 4। प्रश्न 4. रोमियों 1:17। प्रश्न 5. जिसने पिन्तेकुस्त का गवाही दिया।

L 34 Q 1 Holy Spirit. 2 Cor. 5:14 Q 2 Page 112 para4 Q 4 Romans 1:17 Q 5 Who witnessed Pentecost.

पाठ 35 प्रश्न 1. इफिसुस में।

L 35Q 1 At Ephesus.

पाठ 36 प्रश्न 2. जैसा कि राजा फिलिप ने उस जगह पर शासन किया था जो महान सिकन्दर का पिता था। प्रश्न 4. इपफ्रास।

L 36 Q 2 As king Philip ruled that place who was the father of Alexander the great. Q 4 Epaphras.

पाठ 37 प्रश्न 1. मसीहियों का इकेश्वरवादी विश्वास। प्रश्न 5. मसीही सेवकाई में सहनशील बनें।

L 37 Q 1 Monotheistic belief of Christians. Q5 Be tolerant in the Christian ministry.

पाठ 38 प्रश्न 1. कलीसिया प्रशासन। प्रश्न 2. दासत्व। प्रश्न 6. मसीह की प्रभुता।

L 38 Q 1 Church administration. Q 2 Slavery. Q 6 Supremacy of Christ.

पाठ 39 प्रश्न 1. चार – मत्ती 13:55; मरकुस 6:3; गलातियों 1:9। प्रश्न 4. भोर का तारा।

L 39 Q 1 Four –Matt. 13:55; Mark 6:3; Gal. 1:9 Q 4 Morning Star

पाठ 40 प्रश्न 2. भरें। 1. इफिसुस में। 2. सत्य के रूप में। 3. बीचवई।

L 40`Q 2 Fill 1 in Ephesus, 2- as truth 3- advocate.

पाठ 41 प्रश्न 1. जैसा कि वे सम्राट के सम्मुख नहीं झुके। प्रश्न 5. मसीह के निकट आने के जितना।

L 41 Q 1 As they did not bow before the emperor. Q 5 As more to come to Christ.

+